

RISHIKUL SANTAN COLLEGE**COVID WORKSHEET 2****प्रश्न 1. व्याकरण प्रयोग**

अ. दिए गए सही जवाब के बगल वाले अक्षर पर गोलाकार निशान बनाइए ।

1. उसका घर मेरे घर से ----- दूर है ।
क. तोड़ा
ख. थोड़े
ग. थोड़ी
घ. थोड़ा
2. बड़े बूढ़ों का ----- करना हमारा धर्म है ।
क. समाना
ख. समना
ग. सम्मान
घ. सामान
3. लोगों को अपनी सम्पत्ति की रक्षा ----- चाहिए ।
क. करनी
ख. करने
ग. करना
घ. करते
4. -----माँ कल मंदिर पूजा करने गई थी ।
क. मेरी
ख. मेरो
ग. अपनी
घ. अपने
5. ----- मेहनत से ही सफलता मिलती है ।
क. कड़ा

ख.	कड़े
ग.	कड़ी
घ.	कड़ीं

अंक 5

आ: कोष्ठक में दिए गए शब्दों के सही रूप से इन वाक्यों की पूर्ति कीजिए ।

6. अध्यापक विद्यार्थियों को ज्ञान ----- हैं । (देना)
7. आलसी लोग समय का सदुपयोग नहीं -----। (करना)
8. स्वस्थ शरीर में जल्द बीमारी या रोग नहीं ----- है । (होना)
9. हमें यह जान ----- चाहिए कि भगवान ही सब का रक्षक है । (लेने)
10. रमेश नित्य अपनी बेटी से -----आता है । (मिलना)

(अंक 5)

इ: दिए गए वाक्य अशुद्ध हैं । इन्हें शुद्ध करके लिखिए ।

11. कल हार-जीत की निर्णय न हो सकी ।

12. राम से कहा है की कल वह शहर से दूर जाने वाला है ।

13. मेरा कुत्ते ने कल मेरे पड़ोसी के काट लिया ।

14. सब से सरल भक्ति भगवान की भजन ही बताए गया है ।

15. घी छोड़ते ही यज्ञ का अग्नि प्रज्वलित हो गया ।

(अंक 5)

प्रश्न 2.

अनुवाद

इस अंश को हिन्दी में अनुवाद करो ।

Cities provide various opportunities for entertainment. In every city there are a number of cinema houses, restaurants and hotels where we can get food and recreation of the finest quality. There are many parks and gardens where we can enjoy natural beauty at its best. The markets of the city specially when brilliantly lit at night are better than many exhibitions.

(अंक 5)

प्रश्न 2

पत्र - Letter

अंक : 10

नीचे दिए गए विषय पर लगभग 80 शब्दों का एक पत्र अपनी पुस्कत में लिखिए ।

तुम्हारा नाम रवि/ गौरी है और तुम 15 बूढ़ी रोड, नौसोरी में रहते / रहती हो तथा ऋषिकुल सनातन कालेज में पढ़ते/पढ़ती हो । नायर ट्रान्सपोर्ट कम्पनी ,नकासी सूवा, के पास खत लिख कर शिकायत करो कि तुम्हारे इलाके में बस की सेवाएं नियमित रूप से नहीं मिलती है । जिसके कारण तुम्हें कई समस्याएं होती हैं । किन्हीं तीन कारणों को बताते हुए इस समस्या का समाधान ढूँढने की आशा करो ताकि भविष्य में सी मुसीबत न हो ।

प्रश्न 3

बोधन

अंक 5

इस अंश को ध्यान से पढ़कर प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर-पुस्तिका में लिखिए ।

तम्बाकू पीना या धूम्रपान एक बहुत ही हानिकारक दुर्व्यसन है । इस से शरीर में कई प्रकार के विकार उत्पन्न हो जाते हैं । मानसिक संतुलन को यह खराब कर देता है । सामाजिक जीवन में भी यह प्रशंसनीय नहीं है । तम्बाकू का धुँआ शरीर के अन्दर फेफड़ों में जाकर जम जाता है और श्वास नालियों को मलिन कर देता है । इस से कई रोग पैदा होने लगते हैं । पाचन शक्ति कमजोर पड़ जाती है, भोजन ठीक से नहीं पचता और शरीर धीरे धीरे कमजोर होने लगता है । धूम्रपान दमा, तपेदिक और खून की कमी जैसे रोगों को जन्म देता है । तब हृदय, मस्तिष्क और शरीर में विभिन्न प्रकार के रोग पनपने लगते हैं । आयु कम होने लगती है और मानव असमय ही काल के चपेट में आ जाता है ।

आज के चिकित्सक बताते हैं कि धूम्रपान करने वाली की पत्नी और उसके संतानों को भी इसका कुप्रभाव पड़ता है और वे भी रोगग्रस्त हो जाते हैं । धूम्रपान से निकलने वाला धुँआ वायुमण्डल को भी दूषित कर देता है अतः आस पास के लोगों पर भी उसका बुरा असर पड़ता है और उनकी श्वास नालियाँ खराब होने लगती हैं । अतः बसों तथा सार्वजनिक स्थानों में 'धूम्रपान निषेध' का आदेश लिखा मिलता है ।

धुम्रपान की आदत प्रायः कुसंगति के कारण पड़ती है। धुम्रपान करने वाले मित्र अपने साथी को अपने साथ मिलाने के लिए उसे तम्बाकू पीने की आदत डाल देते हैं। महात्मा गाँधी ने भी बचपन में कुसंग में पड़कर धुम्रपान किए थे। परन्तु वे खुद ही सम्भल गए थे और फिर वे ऐसे मित्रों को ही त्याग दिए थे।

धुम्रपान पर राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर विरोध किया जाता है। इसलिए धुम्रपान के विरूद्ध रेडियो एवं दूरदर्शन तथा समाचार पत्रों द्वारा प्रचार किया जाता है। सिगरेट की डिब्बियों पर सरकारी आदेश के अनुसार 'विष' लिखकर धुम्रपान करने से रोका जाता है।

धुम्रपान की आदत को छोड़ने के लिए तीन बातों पर ध्यान देना चाहिए। पहला उपाय है कि धुम्रपान से होने वाली हानियों को पूरी तरह समझना चाहिए। दूसरा उपाय है कि दृढ़ संकल्प लेकर उस पर चलने का पूरा प्रयास करें। धुम्रपान ऐसा दुर्व्यसन है, जो स्वास्थ्य को नष्ट कर मानव को मृत्यु की ओर ढकेल देता है। अतः इस दुर्व्यसन से सदा दूर ही रहना चाहिए।

प्रश्न: सही जवाब के बगल वाले अक्षर पर गोलाकार निशान बनाइए।

1. इस पाठ में रेखांकित शब्द 'असमय ही काल के चपेट' का क्या अर्थ लिया जाता है ?

- क. काल का भोजन
- ख. मर जाना
- ग. जन्म लेना
- घ. काल बन जाना

2. धुम्रपान की आदत अक्सर किस कारण से पड़ जाती है ?

- क. बुरी संगत के कारण
- ख. मित्रों के कारण
- ग. शत्रुओं के कारण
- घ. सुसंगति के कारण

3. पाठ में आए 'दुर्व्यसन' शब्द का अर्थ है ?

- क. आदत
- ख. लत
- ग. बुरी आदत

घ. बुरा व्यवहार

4. पाठ में आए शब्द 'मलिन' का विलोम शब्द क्या है ?

- क. मैला
- ख. दूषित
- ग. साफ
- घ. अशुद्ध

5. 'धुम्रपान निषेध है' इस आदेश को दूसरे शब्दों में किस प्रकार लिखा जा सकता है ?

- क. तम्बाकू पीने की आज्ञा है ।
- ख. तम्बाकू की रूकावट नहीं है ।
- ग. तम्बाकू पीना मना है ।
- घ. तम्बाकू न पीना मना है ।

(अंक 5)

समाप्त